

The Manager,

December 8, 2025

Department of Corporate Services, BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001	Listing Department, National Stock Exchange of India Ltd, Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051
ISIN Code	: INE350H01032
Scrip Code : 532719	Trading Symbol : BLKASHYAP

Dear Sir,

Sub: Newspaper Advertisement regarding Special Window for Re-lodgement of Physical Share Transfer Requests

Pursuant to the provisions of Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the newspaper advertisements published on December 07, 2025, in Financial Express, English (All Editions) and Jansatta, Hindi (New Delhi Edition), in connection with information related to opening of a special window for re-lodgement of transfer requests for physical shares, in accordance with SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025.

For **B. L. Kashyap And Sons Limited**

**Pushpak Kumar
VP & Company Secretary
F-6871**

This is an advertisement issued, pursuant to Regulation 30(1) and Schedule V of the SEBI (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021 as amended, for information purposes only.



PRACHAY
CAPITAL



(Please scan the QR code to view the Prospectus)

PRACHAY CAPITAL LIMITED

(formerly known as Prachay Capital Private Limited)

CREDIT RATING : BBB-/ Stable (pronounced as CRISIL triple B minus rating with stable outlook) by CRISIL Ratings Limited

Our Company was originally incorporated on February 7, 2017, as Pracaya Financial Services Private Limited, a private limited company under the Companies Act, 2013, pursuant to a certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies, Central Registration Centre. Further on March 27, 2019, the name of our Company was changed to Prachay Capital Private Limited, following the issuance of a fresh certificate of incorporation by the Registrar of Companies, Pune. Subsequently on June 27, 2024, a special resolution was passed at the general meeting of our shareholders, whereby our Company was converted into a public limited Company. A fresh certificate of incorporation was issued by the Registrar of Companies, Central Processing Centre (CPC), on September 4, 2024, and the name of our Company was changed to Prachay Capital Limited. Our Company obtained a certificate of registration from the Reserve Bank of India (RBI) dated August 11, 2017, bearing registration number N-13.02198, allowing us to carry out activities as a Non-Banking Financial Company (NBFC) without accepting public deposits under Section 45IA of the RBI Act, 1934. Subsequently, upon the change of name from Pracaya Financial Services Private Limited to Prachay Capital Private Limited, a new certificate of registration was issued on May 7, 2019 in lieu of original certificate. Following the conversion to a Public Limited Company, we received a fresh certificate of registration on October 7, 2024. For details regarding changes to our Registered Office, see **"History and Certain Corporate Matters"** beginning on page 93 of the Prospectus dated December 02, 2025 ("Prospectus").

Registered Office: Office No 1401/1402, 14th Floor, Next Gen Avenue, Wing B, CTS No2850, S No.103, Bahiratwadi, Near ICC Tower, Senapati Bapat Road, Model Colony, Pune, Pune City, 411016 Maharashtra, India
Corporate Office: Office No 1301 and1401, 13th and 14th Floor, Next Gen Avenue, Wing B, CTS No2850, S No.103, Bahiratwadi, Near ICC Tower, Senapati Bapat Road, Model Colony, Pune, Pune City, 411016 Maharashtra, India
Tel: +91 20 2553 2224; **Website:** www.prachay.com; **Email:** info@prachay.com; **Corporate Identity Number:** U65900PN2017PLC168737; **PAN:** AAICP9544R; **Compliance Officer for the Issue and Joint Company Secretary:** Siddhi Sanjay Bothara; **Tel:** 9970765700; **Email:** siddhi@prachay.com; **Chief Financial Officer:** Alok Karkara; **Tel:** 9970111598; **Email:** alok@prachay.com

PROMOTER OF THE COMPANY :

Our Promoter is Girish Murlidhar Lakhotiya; **Email:** girish@prachay.com; **Tel:** +91 20 2553 2224. For further details, see "Our Promoter" beginning on page 110 of the Prospectus.

PUBLIC ISSUE BY OUR COMPANY OF LISTED, RATED, SECURED, REDEEMABLE, NON-CONVERTIBLE DEBENTURES OF FACE VALUE OF ₹1,000 EACH ("NCDs") FOR AN AMOUNT UP TO ₹7,500 LAKH ("BASE ISSUE SIZE") WITH AN OPTION TO RETAIN OVERSUBSCRIPTION UP TO ₹7,500 LAKH ("GREEN SHOE OPTION"), CUMULATIVELY AGGREGATING UP TO 15,00,000 NCDs FOR AN AGGREGATE AMOUNT OF UP TO ₹15,000 LAKH ("ISSUE SIZE" OR "ISSUE LIMIT") (HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "ISSUE") THROUGH THE DRAFT PROSPECTUS AND THIS PROSPECTUS ("ISSUE DOCUMENT"). THIS ISSUE IS BEING MADE PURSUANT TO THE PROVISIONS OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF NON - CONVERTIBLE SECURITIES) REGULATIONS, 2021, AS AMENDED (THE "SEBI NCS REGULATIONS"), THE COMPANIES ACT, 2013 AND RULES MADE THEREUNDER, EACH AS AMENDED (THE "COMPANIES ACT, 2013") AND THE SEBI NCS MASTER CIRCULAR.

The following is a summary of the terms of the NCDs to be issued pursuant to the Prospectus dated December 02, 2025.

Tenure	36 months	48 months	60 months
Nature	Listed, Rated, Secured, Redeemable and Non-Convertible Debentures		
Series	I	II	III*
Frequency of Interest Payment	Monthly	Monthly	Monthly
Minimum Application	10 NCDs (₹10,000) (across all series of NCDs)		
In multiples, of	1 NCD after the minimum application		
Face Value of NCDs (₹/NCD)	₹1,000		
Issue Price (₹/NCD)	₹1,000		
Mode of Interest Payment/ Redemption	Please see, "Terms of The Issue- Manner of Payment of Interest / Redemption Amounts" on Page 203 of the Prospectus		
Coupon rate % Per Annum	12.50%	12.75%	13.00%
Effective Yield % Per Annum	13.24%	13.52%	13.80%
Redemption Amount of ₹1,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00
Maturity / Redemption Date	29/12/2028	29/12/2029	29/12/2030
Coupon Type	Fixed		
Put Option	Not Applicable		
Call Option	The Issuer shall have right (but no obligation) to recall or redeem outstanding Debentures (fully or partially) on the Call Date(s), which right can be exercised at any time after the period of 1 (one) year from the Deemed Date of Allotment of NCDs, prior to the scheduled Redemption Date. It is hereby clarified that in case of partial recall or redemption, the NCDs shall be recalled or redeemed on proportionate basis only. It is further clarified that such right to exercise Call Option by the Company is available and exercisable separately for each Series of the NCDs, i.e., exercisable separately at each ISIN level.		
Deemed Date of Allotment	The date on which the Board or the Liabilities Management Committee approves the Allotment of NCDs. All benefits relating to the NCDs including interest on NCDs shall be available to Investors from the Deemed Date of Allotment. The actual allotment of NCDs may take place on a date other than the Deemed Date of Allotment.		

*The Company would allocate and allot Series III NCDs to all valid applications wherein the applicants have not indicated the choice of the relevant NCD Series. Please note that the Company would be using the Electronic Bidding software of BSE for the Issue.

ISSUE PROGRAMME*

ISSUE OPENS ON: THURSDAY, DECEMBER 11, 2025

ISSUE CLOSSES ON: WEDNESDAY, DECEMBER 24, 2025

*This Issue shall remain open for subscription on Working Days from 10:00 a.m. to 5:00 p.m. (Indian Standard Time) during the period indicated above, except that this Issue may close on such earlier date or extended date (subject to a minimum period of two Working Days and a maximum period of ten Working Days from the date of opening of the Issue and subject to not exceeding thirty days from filing this Prospectus with ROC) as may be decided by the Board of Directors of our Company or Liabilities Management Committee and subject to compliance with Regulation 33A of the SEBI NCS Regulations. In the event of an early closure or extension of this Issue our Company shall ensure that notice of the same is provided to the prospective investors through an advertisement in all the newspapers in which pre-issue advertisement for opening of this Issue has been given on or before such earlier or initial date of Issue closure. Application Forms for the Issue will be accepted only from 10:00 a.m. to 5:00 p.m. (Indian Standard Time) or such extended time as may be permitted by the Stock Exchange, on Working Days during the Issue Period. On the Issue Closing Date, the Application Forms will be accepted only between 10:00 a.m. and 3:00 p.m. (Indian Standard Time) and uploaded until 5:00 p.m. or such extended time as may be permitted by the Stock Exchange. Further, pending mandate requests for bids placed on the last day of bidding will be validated by 5:00 p.m. (Indian Standard Time) on the Issue Closing Date. For further details please refer to the chapter titled "Issue Related Information" on page 168 of the Prospectus.

ASBA*

Simple, Safe, Smart way of Application!!!

*Applications supported by blocked amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account. For further details, see "Issue Procedure" on page 208 of the Prospectus.

Mandatory in Public Issues of Non-Convertible Securities from October 01, 2018. No cheque will be accepted.



UPI – NOW available in ASBA for Retail Individual Investors ("RILs")**

Investors are required to ensure that the bank account used for bidding is linked to their PAN.

UPI - Now available in ASBA for Retail Individual Investors ("RILs") through UPI one can submit bids for an application value of 5 lakhs rupees only. RILs can apply for upto 10 lakhs applying through Registered Brokers, DP's and RTA's. Retail Individual Investors also have the option to submit the application directly to the ASBA Bank (SCSBs) or to use the facility of linked online trading, demat and bank account.

*ASBA has to be availed by all the investors. UPI may be availed by RILs. For details on the ASBA and UPI Process, please refer to the details given in application form and Abridged Prospectus and also please refer to the section "Issue Procedure" beginning on page 228 of the Prospectus.

**List of banks supporting UPI is also available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. For the list of UPI Apps and banks live on IPO/NCD, please refer to the link: www.sebi.gov.in. HDFC Bank Limited is appointed as Sponsor Bank to the Issue, in accordance with the requirements of SEBI circular dated November 23, 2020. For UPI related queries, investors can contact NPCI at the toll free number : 18001201740 and mail id: ipo.upi@npci.org.in

Information required under Section 30 of Companies Act, 2013 and the SEBI (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021:

Contents of the Memorandum of Association of the Company as regards its objects: For information on the main objects of our Company, see "History and Certain Other Corporate Matters" on page 93 of the Prospectus. The Memorandum of Association of the Company is a document for inspection in relation to the Issue. For further details, see the section titled "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 258 of the Prospectus.

Liability of Members: Limited by shares.

Amount of share capital of the Company as at the date of the Prospectus: Authorised Equity Share Capital of the Company is ₹ 28,00,00,000 divided into 2,80,00,000 Equity Shares of face value of ₹ 10 each and 20,00,000 Preference Shares of face value of ₹10 each. The Issued, Subscribed and Paid-up share capital of the Company is ₹ 22,90,00,00,000 divided into 2,29,00,000 Equity Shares of face value of ₹ 10 each.

Names of the signatories at the time of signing of the Memorandum of Association of the Company and the number of shares subscribed for by them at the time of signing of the Memorandum of Association: Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the Number of Equity Shares subscribed for of face value of ₹10 each by them at the time of signing of Memorandum of Association. Girish Murlidhar Lakhotiya: 5,000 Equity Shares and Roshan Rajendra Sancheti: 5,000 Equity Shares

LISTING: The NCDs offered through this Prospectus are proposed to be listed on BSE. Our Company has received an 'in-principle' approval from BSE by way of its letter bearing reference number DCS/HB/PI-BOND/13/25-26 dated September 09, 2025. For the purposes of this Issue, BSE shall be the Designated Stock Exchange.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the Prospectus has been cleared or approved by BSE Limited nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Prospectus. The investors are advised to refer to the Prospectus for the full text of the Disclaimer Clause of the BSE Limited on Page 174 of the Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE ELECTRONIC PLATFORM: It is to be distinctly understood that the permission given by the BSE to use their network and software of the online system should not in any way be deemed or construed as compliance with various statutory requirement approved by the BSE; nor does it in any manner warrant, certify or endorse the correctness or completeness of any of the compliance with the statutory and other requirements nor does it take any responsibility for the financial or other soundness of this Company, its promoters, its management or any scheme or project of this Company.

DISCLAIMER CLAUSE OF RBI: The Company is having a valid certificate of registration dated August 11, 2017 bearing registration no. N-13.02198 issued by the Reserve Bank of India under section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. However, RBI does not accept any responsibility or guarantee about the present position as to the financial soundness of the company or for the correctness of any of the statements or representations made or opinions expressed by the Company and for repayment of deposits/ discharge of liability by the Company.

DISCLAIMER CLAUSE OF CRISIL RATINGS LIMITED : Crisil Ratings Limited (Crisil Ratings) has taken due care and caution in preparing the material based on the information provided by its client and / or obtained by Crisil ratings from sources which it considers reliable (information). A rating by Crisil ratings reflects its current opinion on the likelihood of timely payment of the obligations under the rated instrument and does not constitute an audit of the rated entity by Crisil ratings. Crisil ratings does not guarantee the completeness or accuracy of the information on which the rating is based. A rating by Crisil ratings is not a recommendation to buy, sell, or hold the rated instrument, it does not comment on the market price or suitability for a particular investor. The rating is not a recommendation to invest/disinvest in any entity covered in the material and no part of the material should be construed as an expert advice or investment advice or any form of investment banking within the meaning of any law or regulation. Crisil ratings especially states that it has no liability whatsoever to the subscribers/users/transmitters/distributors of the material without limiting the generality of the foregoing, nothing in the material is to be construed as Crisil ratings providing or intending to provide any services in jurisdictions where Crisil ratings does not have the necessary permission and/or registration to carry out its business activities in this regard. Prachay Capital Limited will be responsible for ensuring compliances and consequences of non-compliances for use of the material or part thereof outside India. Current rating status and Crisil Ratings' rating criteria are available without charge to the public on the website, www.crisilratings.com. For the latest rating information on any instrument of any company rated by Crisil Ratings, please contact customer service helpdesk at 1800-267-1301.

GENERAL RISKS: Investment in non-convertible securities is risky, and investors should not invest any funds in such securities unless they can afford to take the risk attached to such investments. Investors are advised to take an informed decision and to read the risk factors carefully before investing in this offering. For taking an investment decision, investors must rely on their examination of the issue including the risks involved in it. Specific attention of investors is invited to statement of risk factors contained under "Risk Factors" and "Material Developments" on page 20 and 114, of the Prospectus, respectively. These risks are not, and are not intended to be, a complete list of all risks and considerations relevant to the non-convertible securities or investor's decision to purchase such securities. This Prospectus has not been and will not be approved by any regulatory authority in India, including the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), the Reserve Bank of India ("RBI"), RoC or any stock exchange in India nor do they guarantee the accuracy or adequacy of this document.

AVAILABILITY OF APPLICATION FORM: Application Forms can be obtained from: Prachay Capital Limited, (formerly known as Prachay Capital Private Limited), Tel: +91 20 2553 2224; Lead Manager: KREO Capital Private Limited, Tel: 0712-2997550/51 and offices of Syndicate Member: Prachay Securities Private Limited, Tel: +91 20 25532224, Trading Members and Designated Branches of the SCSBs. Application Forms may be downloaded from the websites of the Company, BSE and the Lead Manager.

AVAILABILITY OF PROSPECTUS: Investors are advised to refer to the Prospectus and the Risk Factors contained therein, before applying in the Issue. Physical copy of the Prospectus may be obtained from the Registered and Corporate Office of the Company and the Lead Manager. Full copy of the Prospectus will be available on the website of the Issuer at www.prachay.com, of the Lead Manager at www.kreocapital.com, of the BSE at www.bseindia.com and of the SEBI at www.sebi.gov.in.

PUBLIC ISSUE ACCOUNT BANK, BANKER TO THE ISSUE, SPONSOR BANK AND REFUND BANK : HDFC Bank Limited

UPI: Retail Individual Bidders can also Bid through UPI mechanism

Note: All Capitalised terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Prospectus dated December 02, 2025

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	DEBENTURE TRUSTEE**	REGISTRAR TO THE ISSUE	CREDIT RATING AGENCY	STATUTORY AUDITOR	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
				C.V. Chitale & Co. Chartered Accountants, 3, Gurukrupa Apartment, 1317, Shukrawar Peth, Near Bajirao Road Telephone Exchange, Pune - 411002 E-mail: Pune@cvcchitale.com Website: www.cvcchitale.com Tel: +91 20 24475425 Firm Registration No.: 0126338W	Siddhi Sanjay Bothara Office No 1401/1402, 14th Floor, Next Gen Avenue, Wing B, CTS No 2850, S No 103, Bahiratwadi, Near ICC Tower, Senapati Bapat Road, Model Colony, Pune – 411016, Maharashtra, India. E-mail: siddhi@prachay.com Tel: +91 99707 65700 Investors may contact the Registrar to the Issue or the Compliance Officer in case of any pre-issue or post-issue related issues such as non-receipt of Allotment Advice, demat credit of allotted NCDs, refund orders or interest on application money, etc.
KREO CAPITAL PRIVATE LIMITED 2 nd Floor, VCA Complex, Near Gate No. 8, Civil Lines, Sadar Bazar, Nagpur-440001, Maharashtra, India. Tel: 0712-2997550/51 Email: office@kreocapital.com Website: www.kreocapital.com Investor Grievance e-mail: office@kreocapital.com Contact Person: Ayush Parakh SEBI Registration Number: INM000012689	CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED GDA House, Plot No. 85 Bhusari Colony (Right), Kothrud, Pune – 411 038, Maharashtra, India Tel: +91 22 4922 0555 Fax: +91 22 4922 0505 Email: Compliance-CTL-Mumbai@ctltrustee.com Website: www.catalysttrustee.com Contact Person: Umesh Salvi, Managing Director	KFIN TECHNOLOGIES LIMITED Selenium, Tower-B, Plot No – 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddi – 500 032, Telangana, India Tel: +91 40 6716 2222/ 18003094001 Email: prachay.nodipo@kfintech.com Investor grievance e-mail: einward.ris@kfintech.com Contact Person: M.Murali Krishna Website: www.kfintech.com	CRISIL RATINGS LIMITED Lightbridge IT Park, Saki Vihar Road, Andheri East, Mumbai - 400072 Maharashtra, India. Tel: + 91 22 3342 3000 Email: crisilratingsdesk@crisil.com Website: www.crisilratings.com Contact Person: Ajit Veloni		

** Catalyst Trusteeship Limited pursuant to Regulation 8 of the SEBI NCS Regulations and by way of letter dated July 17, 2025 has given its consent for its appointment as Debenture Trustee to the Issue and for its name to be included in the Draft Prospectus, this Prospectus and in all the subsequent periodical communications sent to the holders of the Debentures issued pursuant to this Issue.

A copy of this Prospectus has been delivered for filing with the RoC, in terms of Section 26 of the Companies Act, 2013, along with the certified copies of all requisite documents. For further details, see "Material Contracts and Documents for Inspection" beginning on page 258 of the Prospectus.

Disclaimer: Prachay Capital Limited ("Company"), subject to market conditions, and other considerations, is proposing a public issue of secured redeemable non-convertible debentures ("NCDs") and has filed a prospectus dated December 02, 2025 ("Prospectus") with the Registrar of Companies, Pune at Maharashtra ("RoC"), BSE Limited ("BSE") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI"). The Prospectus is available on the website of the Company at www.prachay.com, on the website of BSE at www.bseindia.com, on the website of the Lead Manager at www.kreocapital.com, and on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. Investors proposing to participate in the Issue should invest only on the basis of the information contained in the Prospectus. Investors should note that investment in the NCDs involves a high degree of risk and for details in relation to the same, refer to the Prospectus, including the section titled "Risk Factors" and "Material Developments" beginning on page 20 and 114 respectively of the Prospectus.

For PRACHAY CAPITAL LIMITED

Sd/-
Girish Murlidhar Lakhotiya
Managing Director
(DIN : 02699138)

Place: Pune, Maharashtra
Date: December 6, 2025




Gujarat Informatics Limited

Block No. : 2, 2nd Floor, Karmayogi Bhavan,
Sector 10, Gandhinagar-382010 (Gujarat).

NOTICE INVITING BID

GIL invites physical quotations for the condemnation/ disposal of IT assets from e-waste recyclers registered with Gujarat Pollution Control Board (GPCB). Interested parties may visit <http://www.gil.gujarat.gov.in> for more details about the same.

- Managing Director



B. L. KASHYAP AND SONS LIMITED

(CIN: L74899DL1989PLC036148)

Regd. Off.: 409, 4th Floor, DLF Tower-A, Jasola, New Delhi – 110025
Ph: 011-40500300, 011-43058345, fax: 011-40500333
Email: info@blkashyap.com; Website: www.blkashyap.com

Notice to Shareholders

Special Window for Re-lodgement of Transfer Requests of Physical Shares

In terms of SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025 on the captioned subject, please note that the Special Window for re-lodgement of transfer deeds will be open till January 6, 2026. This facility is available only if the transfer deeds were lodged prior to April 1, 2019; and were rejected and returned due to deficiency in the documents. In case you wish to avail this opportunity, please contact the Company's Registrar and Transfer Agent i.e. MUFG Intime India Private Limited at their office at Nobel Heights, 1st Floor, NH-2-C-1 Block, LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058 Phone: 011-49411000 and sending a scan copy of the same at their email id bharatb@in.mnps.mufg.com; swapann@in.mnps.mufg.com with copy marked to cs@blkashyap.com.

Transferred Shares will only be issued in demat mode once all the documents are found in order by RTA. The lodger must have a demat account and provide its Client Master List (CML), along with the transfer documents and share certificate, while lodging the documents for transfer with RTA. Transfer requests submitted after January 06, 2026 will not be accepted by the Company/RTA.

For B.L. KASHYAP AND SONS LIMITED
SD/-
PUSHPAK KUMAR
VP & COMPANY SECRETARY

WE BUILD YOUR WORLD

SBL INFRATECH LIMITED

CIN: L70102DL2015PLC283877

Registered Office: Shop No 160 1st Floor Vardhmaan Fourtune Mall GTK Ind Area Landmark Hans Cinema Hall, Delhi – 110033

Corporate Office: B-2, 1206, West Gate Business Bay, Opp Andaj Party Plot SG Highway Ahmedabad City, Gujarat, India-380051

Email Id: info@sblinfra.com **Website:** www.sblinfra.com
Mobile No.: 9873732329 **Phone No.:** 011-46681551

NOTICE OF 10th ANNUAL GENERAL MEETING REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

- Notice is hereby given that the 10th Annual General Meeting (AGM) of the members of **SBL INFRA TECH LIMITED** (Company) will be held on **Monday, 29th day of December, 2025 at 12:30 P.M. (IST)** through Video Conference (VC) / Other Audio Video Means (OAVM), to transact the businesses as set out in the Notice of AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and Rules framed thereunder read with General Circular issued from time to time, respectively circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars").
- Electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year ended 31st March, 2025 of the Company has been sent to all the members, whose email ids are registered with the Company/RTA/Depository participant(s), as on the cut-off date i.e. 19th December, 2025 (Friday). Please note that the requirement of sending physical copy of the Notice of the 10th AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circulars. The Notice and the Annual Report will also be available and can be downloaded from the website of the Company <https://www.sblinfra.com/>.
- The facility of casting the votes by the members ("e-voting") will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL) and the detailed procedure for the same is provided in the Notice of the AGM. The remote e-voting period commences on 26th December, 2025 at 9:00 A.M. (IST) and end on 28th December, 2025 at 05:00 P.M. (IST). During this period, members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 19th December, 2025, may cast their vote by remote e-voting or by e-voting at the time of AGM. Members participating through in person shall be counted for reckoning the quorum under Section 103 of the Act.
- Members, who are holding shares in physical/electronic form and their e-mail addresses are not registered with the Company/their respective Depository Participants, are requested to register their e-mail addresses at the earliest by sending scanned copy of a duly signed letter by the Member(s) mentioning their name, complete address, folio number, number of shares held with the Company along with self-attested scanned copy of the PAN Card and self-attested scanned copy of any one of the following documents viz., Aadhaar Card, Driving License, Election Card, Passport, utility bill or any other Govt. document in support of the address proof of the Member as registered with the Company for receiving the Annual Report of 2024-2025 along with AGM Notice by email to cs@sblinfra.com. Members holding shares in demat form can update their email address with their Depository Participants. The notice of the AGM contains the instructions regarding the manner in which the shareholders can cast their vote through remote e-voting or by e-voting at the time of AGM.
- The Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from Monday, 22nd December, 2025 to Monday, 29th December, 2025 (both days inclusive).
- The Notice of AGM and Annual Report for the financial 2024-2025 has been sent to members in accordance with the applicable provisions.

**By Order of the Board of Directors
For SBL Infotech Limited**
Sd/-
Rohan Jagdipbhai Vora
Director & CFO
DIN: 09815890

Place: Delhi
Date: 06.12.2025

RNIT AI SOLUTIONS LIMITED

(Formerly known as Autopal Industries Ltd)

CIN: L62090RJ1985PLC003427

Regd. Off.: 138 Kalyan Kunj Colony, Kalwar Road ,Jhotwara, Jaipur, Rajasthan, India, 302012, Telephone: + 91 92814 17110, E-mail: cs@rnit.ai, Website: www.rnit.ai

NOTICE OF THE 01st ANNUAL GENERAL MEETING (POST RELISTING), E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE OF THE COMPANY

Notice is hereby given that the 01st Annual General Meeting (AGM) (Post Relisting) of the Company will be held on Monday, December 29, 2025 at 02:00 P.M. (IST) through Video Conferencing (VC) Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business set out in the AGM notice dated December 06, 2025.

The company had completed the dispatch of the Annual Report for the financial year 2024-25 and also the notice of the AGM, Directors Report, Financial Statements etc., on December 06, 2025 by electronic mode (emails) to those members whose email IDs are registered with the RTA/Company/Depository Participant(s) as the requirements of sending physical copy of the notice of the AGM and Annual Report for the Financial year 2024-25, have been dispensed away with.

Members may note that the Annual Report 2024-25 will also be available on the Company's website <https://rnit.ai/home>, website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited (agency for providing the Remote e-Voting facility) at www.evoting.nsdl.com

Pursuant to Regulation 42 of SEBI (LODR) Regulation 2015, Section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable Rules there under, the Register of Members and Share Transfer Books of the Equity shares of the Company will remain closed from December 23, 2025 to December 29, 2025 (inclusive of both days) for the purpose of Annual General Meeting.

Remote e-Voting:

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 (the 'Act') read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings ('SS-2') issued by the ICSI and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company has provided facility of voting by remote electronic voting ('Remote e-voting') and e-voting during the Meeting ('Insta Poll') using facility offered by National Securities Depository Limited ('NSDL'), Registrar and Transfer Agent (RTA). The detailed procedure/instructions for e-Voting are contained in the notice of the AGM. All the Members are informed that:

- The Company is providing to its Members the facility of remote e-voting and e-voting during the AGM in respect of the business to be transacted at the AGM.
- The remote e-voting shall commence on Friday, December 26, 2025, at 9:00 A.M. (IST)
- The remote e-voting shall end on Sunday, December 28, 2025, at 5:00 P.M. (IST)
- The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or e-voting during the AGM shall be December 22, 2025.
- Any person, who acquires shares of the company and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares on the cut off date i.e December 22, 2025 may follow the same instructions for remote e-voting as mentioned in the notice of AGM.
- The e-voting module shall be disabled for voting after expiry of the period mentioned above. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the member shall not be allowed to change it subsequently. Further the Members who have casted their vote electronically may participate in the Annual General Meeting.
- Mr. Vijaya Kumar M, Company Secretary in Practice of M/s. MVK & Associates, Hyderabad, has been appointed as Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

In case of any query pertaining to E-voting, please visit Help & FAQ's section available at NSDL website www.evoting.nsdl.com or you may contact M/s

बी. एल. कश्यप एंड संस लिमिटेड

(सीआईएन: L74899DL1989PLC036148)

पंजी. कार्या. : 409, 4था तल, डीएलएफ टावर-ए, जसोला, नई दिल्ली – 110025

फोन : 011-40500300, 011-43058345, फैक्स: 011-40500333

ईमेल: info@blkashyp.com; वेबसाइट: www.blkashyp.com

शेयरधारकों के लिए सूचना

भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः जमा करने के लिए विशेष विंडो

उपरोक्त विषय पर दिनांक 02 जुलाई, 2025 के सेबी सूक्तन सं. SEBI/HO/MRSD/MRSD-POD/PCIR/2025/97 के संदर्भ में, कृपया ध्यान दें कि हस्तांतरण विच्छेद को पुनः जमा करने के लिए विशेष विंडो 6 जनवरी, 2025 तक खुली रहेगी। यह सुविधा केवल तभी उपलब्ध है जब हस्तांतरण विच्छेद 1 अक्टूबर, 2019 से पहले जमा किए गए थे, और दस्तावेजों में कमी के कारण अचरित्रता कर दिए गए थे तथा वापस कर दिए गए थे। यदि आप इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं, तो कृपया कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, अर्थात् एमयूएफएन इंडियन सीडिया प्राइवेट लिमिटेड से उनके कार्यालय नोबेल हाइवे, पहली मंजिल, एनएच-2, सी-1 ब्लॉक, एलएफसी, निगर ग्राहिवी पॉइंट, कन्नपुरम, नई दिल्ली-110058 पर संपर्क करें। फोन: 011-49411100, और उनकी ईमेल आईडी: blharath@in.mpnms.mufg.com; swapanan@in.mpnms.mufg.com पर संपर्क करें।

एक बार आप आर्टीडा ड्राग रफी दस्तावेज सही गए जते हैं, तो हस्तांतरित शेयर केवल सेबी मोड में जारी किए जाएंगे। हस्तांतरण के लिए दस्तावेज जमा करने समय, जमाकर्ता के पास एक डीडीट खाता होना चाहिए और उसे हस्तांतरण दस्तावेजों और शेयर प्रमाण पत्र के साथ अपना स्टाफ्ट मास्टर लिटर ("पीएमए") भी आर्टीटा के साथ प्रदान करना होगा। 6 जनवरी, 2026 के बाद जमा किए गए हस्तांतरण अनुरोधों को कंपनी आर्टीटा द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

बी. एल. कश्यप एंड संस लिमिटेड के लिए

हस्ता- /

पब्लिक कुमार

सीपी और कंपनी सेक्रेटरी

बी बिल्ड योर वर्ल्ड

दिनांक: 6 दिसंबर, 2025

स्थान: नई दिल्ली

WE BUILD YOUR WORLD

HINDUJHA HOUSING FINANCE LIMITED

कॉर्पोरेट कार्यालय: 169-169, बुरेकी मंडी, लिटिल फ्लाइट वॉरिड, बंगलाई – 600015

संपर्क संख्या: हस्तमंडीन पत्रा: 8468888202 | उभरा मोबाइल: 8954281688

कंपनी नोटिस (अचल संपत्ति के लिए)

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत)

जबकि अयोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमवली 2002 [2002 का 54] के नियम के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित कर्जदारों को निम्नांकित दिनांकों को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि प्रत्येक कर्जदार के अपने बॉण्ड है उक्त सूचना की तिथि से 80 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था। कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने में असमर्थ हो गये हैं, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार और गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अयोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत सम्पत्ति का कब्जा नीचे प्रत्येक खाते के सामने अंकित के अनुसार किया है।

खाता नं. और कर्जदार का नाम	मांग सूचना की तारीख एवं तिथि
तैलन: UPL/KIN/AGRA/A000007015 1: सुधी नमिता शर्मा धानी श्री अनीशी शर्मा 2: श्री अनीशी शर्मा पुत्री श्री देवकी नन्दन शर्मा, निवासी: 14/55, सोरो कटरा सीड कन्स, लेब ब्लाकनगर आगरा 226010 और संपत्ति का पता: 14/54/2वीं सोरो कटरा शाहजान आगरा 226010।। हस्तमंडीन दिनांक: 31/03/2025	13.10.2021 और कुल कर्जा रु. 10,65,693/- सांख्यिक कब्जा तिथि: 15.08.2022

संपत्ति का विवरण: कंपनी का डब नमबर एम एच और जॉय 14/54/2वीं सोरो कटरा, शाहजान आगरा 226010 में स्थित है। सीमाई: पूर्व-गोदी 6 फीट और अन्य मकान परिसर – अन्य संपत्ति, उत्तर – बम्बो बुरेकी का मकान, दक्षिण – दोतरावन का मकान

विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, के द्वारा जारी निम्नलिखित राशि और उपरोक्तधारा राशि पर संचालनकर दर पर नीचेय का पालन, इत्यादि सहित के अधीन होगा। उपर्युक्त का ध्यान एतद की धारा 13 की उपधारा (4) के प्रावधानों के अंतर्गत सुवर्धित परिसंपत्तियों के कब्जा करने हेतु उपलब्ध समग्र सीमा की और आकर्षित किया जाता है।

दिनांक : 07.12.2025, स्थान : आगरा

प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)

जमा करने की विस्तारित अंतिम तिथि

मेसर्स केकेएसपीयूएन इंडिया लिमिटेड

(सीआईएन: U29199DL2006PLC144590)

दिनांक 20-11-2025 को प्रकाशित फॉर्म के क्रम में, सभी हिताधारकों और संभावित समाधान आवेदकों को सूचित किया जाना है कि मेसर्स केकेएसपीयूएन इंडिया लिमिटेड के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 12 दिसंबर 2025 को बस 6 वजे तक बंद हो गई है।

तदनुसार, प्रक्रिया के आगामी चरणों के लिए संशोधित तिथियाँ निम्नानुसार हैं:

गतिविधि	संशोधित तिथि
पीआरए द्वारा ईओआई प्रस्तुत करना	22-12-2025
पीआरए की अंतिम सूची जारी करना	22-12-2025
पीआरए द्वारा आपत्तियाँ प्रस्तुत करना, यदि कोई हो	27-12-2025
पीआरए की अंतिम सूची जारी करना	08-01-2026
आइएम, आरएफआरपी जारी करना	11-01-2026
समाधान योजनाओं की प्रारंभिक की अंतिम तिथि	10-02-2026

अन्य सभी नियम, शर्तें और पात्रता मानाईव अपरिवर्तित रहेंगे। जिन पीआरए ने पहले ही अपना ईओआई जमा कर दिया है, उन्हें इसे फिर से जमा करने की आवश्यकता नहीं है। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां लिखें: kkspunindia.cirp@gmail.com

हरविंदर सिंह
समाधान पेशेवर
केकेएसपीयूएन इंडिया लिमिटेड (कॉर्पोरेट दिवालिप्रापन के अंतर्गत दिवालिप्रापन और दिवालिप्रापन की समाधान प्रक्रिया एनसीएलटी आदेश दिनांक 11.07.2025 के अनुसार कोड 2016) पंजी. सं. IBB/IPA-001/IP-P00463/2017-18/10806
एफएफ वैंस 31.12.2026 तक
पंजी. पता: 11, सीएससी डीडीयू मार्केट, ए ब्लॉक, स्थान: नई दिल्ली, दिनांक 06.12.2025 सरस्वती विहार, नई दिल्ली- 110034

संशोधित फॉर्म जी अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण पशुपति डेयरीज प्राइवेट लिमिटेड सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में डेयरी उत्पादों के निर्माण में कार्यरत दिवाला और ऋण शोध अड्डा (कॉर्पोरेट अधिकृतों के लिए ऋण शोध अड्डा समाधान प्रक्रिया) विनियमवली, 2016 के विनियम 367 के तहत-नियमवली (4) के अधीन

प्रासंगिक विवरण	
1. कॉर्पोरेट देनदार का नाम, पैन और सीआईएन/एलएलपी नंबर सहित।	मेसर्स पशुपति डेयरीज प्राइवेट लिमिटेड पैन - AAECP40748 सीआईएन - U15204DL2003PTC273781
2. पंजीकृत कार्यालय का पता	एक-82, पद्म ताल, शिवाजी नैस राजीवी गार्डन, पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110027
3. वेबसाइट का यूआरएल	लागू नहीं
4. उस स्थान का विवरण जहाँ अधिकतम अचल संपत्तियाँ स्थित हैं	ग्राम कुम्हार हंडा एनएच-73, देहरादून रोड, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, 247001
5. मुख्य उत्पाद/सेवाओं की स्थापित क्षमता	लागू नहीं
6. पिछले वित्तीय वर्ष में कुल गए मुख्य उत्पादों/सेवाओं की मात्रा और मूल्य	लागू नहीं
7. कर्मचारियों/कामगारों की संख्या	सूचना
8. जो सेवा के अंतर्गत उपलब्ध तिथि। विवरण (अनुसूची के साथ, ऋणदाताओं की सूची सहित अन्य विवरण URL पर उपलब्ध है।	वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बैलेंस शीट वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बैलेंस शीट www.stalwartipe.com
9. सांख्यिकी की धारा 25(2)(ए) के तहत समाधान आवेदकों के लिए पत्रा URL पर उपलब्ध है।	वित्तीय (www.stalwartipe.com) से डाउनलोड किया जा सकता है।
10. रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि	24 दिसंबर, 2025 (सुबहवार)
11. संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	2 जनवरी, 2026 (सुबहवार)
12. अंतिम सूची पर आपत्तियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	7 जनवरी, 2026 (सुबहवार)
13. संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	12 जनवरी, 2026 (सोमवार)
14. सूचना आपन, मूल्यांकन मैट्रिक्स और संभावित समाधान आवेदकों के लिए समाधान योजनाओं के अनुरोध जारी करने की तिथि	12 जनवरी, 2026 (सोमवार)
15. अंतिम समाधान योजना प्रस्तुत करने की तिथि	12 फरवरी, 2026 (दुबहवार) वस 05:00 बजे तक ईमेल के साथ-साथ हार्ड कॉपी भी सी संघीय मोडल रिजॉल्यूशन प्रोसेसल कर्माविधि सहकार्य रेगुलेशन प्रोसेसल एडवोकेसी एडवोसी 73, पीतमपुरा दिल्ली 110034 को जमा करनी होगी
16. रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के लिए ईमेल आईडी संभावित करें	cirp.pashupati@gmail.com

सीएसपी सीडीयू रोड, सहारनपुर फेडरल

(BB/IPA-003/IP-N00073/2017-18/10533)

एफएफ वैंस AA3/10583/01/300626/301302 बैलेंस 30.06.2026 तक

मेसर्स पशुपति डेयरीज प्राइवेट लिमिटेड (सहकार्य के अंतर्गत)

पंजीकृत कार्यालय एड्रेस-73 पीतमपुरा, नई दिल्ली 110034

तिथि: 07/12/2025

स्थान: दिल्ली

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

भौतिक कब्जा सूचना

पंजीकृत कार्यालय: आईसीआईआई बैंक टावर, बंगला-कुला कॉम्प्लेक्स, बंगला (पूरी), मुंबई-400051

कॉर्पोरेट कार्यालय: आईसीआईआई एएएफएसी टावर, जेबी नगर, अंधेरी कुला रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई-400059

शाखा कार्यालय: प्रथम तल, मेडिकल कॉलेज रोड, आईसीआईआई बैंक के कार, वसन्तपुर, गोरखपुर-273004

जबकि

अयोहस्ताक्षरी ने वित्तीय अतिवृत्तों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत आईसीआईआई होम फाइनेंस कंपनी का अधिकृत अधिकारी होने के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में कथित सूचना की प्रारंभ से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का पुनर्निर्माण के लिए निम्नलिखित कर्जदारों को मांग सूचनाएं जारी की थीं।

कर्जदारों द्वारा राशि के पुनर्निर्माण में असमर्थ रहने के कारण कर्जदारों एवं जनसाधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अयोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है। व्यक्तिगत रूप से कर्जदारों और जनसाधारण को एतद्द्वारा संपत्तियों के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और अप्रचल संपत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन-देन आईसीआईआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रभाव का विषय होगा।

प्रतिभूत संपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में गारंटरों और प्रतिभूति प्रदाताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार का नाम/ज्या खाता संख्या	सम्पत्ति का विवरण/कच्चे की तिथि	मांग सूचना की तिथि/मांग सूचना की राशि (रु.)	शाखा का नाम
1	मोहम्मद वसीम (कर्जदार), गुलशन फातिमा (सह-कर्जदार), सत्य प्रकाश (सह-कर्जदार), LHGOR00001527786.	एनए संपत्ति संख्या 331, ग्राम तेमाराहमत में स्थित, टप्पा उजियार परगना मगर पूर्वी तहसील खलतीलाबाद विला संत कबीर नगर 272170, मिडिल क्लास संपत्ति संख्या 331 गोरखपुर उत्तर प्रदेश 273001 (संदर्भ लेन संख्या LHGOR00001527786) सीमाई- उत्तर: राम मिलन का घर, दक्षिण: खलितान, पूर्व: राम भेंजू और नू आदि का घर, पश्चिम: 4 फीट चौड़ाई गली/ कच्चे की तिथि- 03-दिसंबर-2025	15-09-2023 रु. 19,25,816 /-	गोरखपुर
2	मोहम्मद वसीम (कर्जदार), सत्य प्रकाश (सह-कर्जदार), गुलशन फातिमा (सह-कर्जदार), LHGOR00001528270	एनए संपत्ति संख्या 331, ग्राम तेमाराहमत में स्थित, टप्पा उजियार परगना मगर पूर्वी तहसील खलतीलाबाद विला संत कबीर नगर 272170, मिडिल क्लास संपत्ति संख्या 331 गोरखपुर उत्तर प्रदेश 273001 (संदर्भ लेन संख्या LHGOR00001527786) सीमाई- उत्तर: राम मिलन का घर, दक्षिण: खलितान, पूर्व: राम भेंजू और नू आदि का घर, पश्चिम: 4 फीट चौड़ाई गली/ कच्चे की तिथि- 03-दिसंबर-2025	15-09-2023 रु. 82,643.04 /-	गोरखपुर

उपयुक्त कर्जदारों/गारंटरों को एतद्द्वारा राशि चुकाने के लिए 30 दिन का नोटिस दिया जाता है, अन्यथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के तहत गिरवी रखी गई संपत्तियों को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति पर बेचा जाएगा।

तिथि : 07 दिसंबर 2025, स्थान : गोरखपुर

अधिकृत अधिकारी, आईसीआईआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

भौतिक कब्जा सूचना

पंजीकृत कार्यालय: आईसीआईआई बैंक टावर, बंगला-कुला कॉम्प्लेक्स, बंगला (पूरी), मुंबई-400051

कॉर्पोरेट कार्यालय: आईसीआईआई एएएफएसी टावर, जेबी नगर, अंधेरी कुला रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई-400059

शाखा कार्यालय: पहली मंजिल, कोच नंबर 700, सरस्वाती परगना, अर्जुनगिरि, माटिया बेकरी और एक्सिस बैंक के पास, लखनऊ उत्तर प्रदेश-226002

जबकि

अयोहस्ताक्षरी आईसीआईआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण, पुनर्निर्माण और प्रतिभूति व्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अधिकृत अधिकारी होने के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं को नोटिस में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए मांग नोटिस जारी किया।

सूचित उधारकर्ता उक्त राशि चुकाने में विफल रहा है, इसलिए उधारकर्ता और आम जनता को एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि अयोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 8 के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे वर्णित संपत्ति पर निम्नलिखित तिथियों को अधिकार कर लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन आईसीआईआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रभाव के अधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान सुवर्धित परिसंपत्तियों को भुगतान के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	ऋणीक/सह-ऋणी का नाम/ज्या खाता संख्या	संपत्ति का विवरण/कच्चे की तारीख	मांग नोटिस की तिथि/मांग नोटिस में राशि (रु.)	शाखा का नाम
1	मोहम्मद अमीन मंसूरी (उधारकर्ता), निमारा (सह-उधारकर्ता), LHLKS00001626932	मोहल्ला आदिल नगर वाई शंकरपुरा, लखनऊ उत्तर प्रदेश-226024 में स्थित श्री होल्ड प्लॉट संख्या 4 और 24, द्वितीय तल, खसरा संख्या 200 और 201 के भाग पर निर्मित रीयल एस्टेट परमाणु भवन में कार्यालय का एक भाग है। सीमाबद्ध-उत्तर दिशा में ओपीएस, प्रो. मेसर्स गुनाइटेड इंडिया और द्विनिटी मटरी, दक्षिण दिशा में डीगर प्रॉपर्टी, पूर्व दिशा में ओपन दू, रक्षाई, पश्चिम दिशा में डीगर संपत्ति। कच्चे की तिथि- 05 दिसंबर 2025	19-09-2025 रु. 1,59,80,966.00 /-	लखनऊ शाखा

उपयुक्त उधारकर्ता/ओधारकर्ताओं को एतद्द्वारा राशि चुकाने के लिए 30 दिन का नोटिस दिया जाता है, अन्यथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 और 9 के तहत प्रावधानों के अनुसार, गिरवी रखी गई संपत्तियों को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति पर बेचा जाएगा।

दिनांक: 07 दिसंबर, 2025 स्थान : लखनऊ

प्राधिकृत अधिकारी, आईसीआईआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated November 11, 2025 the "Letter of Offer" or "LOF" filed with the BSE Limited ("BSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

TUNI

TUNI TEXTILE MILLS LIMITED

CIN: L17120MH1987PLC043996

Registered Office: Unit No. 207, 2nd Floor, Building No. 3A, Matil Industrial Estate, Andheri Kurla Road, Andheri (E), Marol Naka, Mumbai, Mumbai, Maharashtra, India, 400069;

Telephone No.: +91 022 46043970 E-mail: info@tunitextiles.com; Website: www.tunitextiles.com.

Contact Person: Ms. Jyoti Kothari; Company Secretary and Compliance Officer

Our Company was originally incorporated as "Tuni Textile Mills Private Limited" ("The Company or Issuer") on July 06, 1987, as a private limited company under the Companies Act, 1956 in the State of Maharashtra. Subsequently, the Company was converted into a Public Limited Company under the name "Tuni Textile Mills Limited" and was issued a fresh certificate of incorporation by the Registrar of Companies ("ROC"), Mumbai, Maharashtra, on August 6, 1992. For further details regarding our Company, please refer to the section titled "General Information" beginning on page 4 of this Letter of Offer.

PROMOTERS OF OUR COMPANY: NARENDRA KUMAR SUREKA AND PRADEEP KUMAR SUREKA

THE ISSUE

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF TUNI TEXTILE MILLS LIMITED ("THE COMPANY")
ISSUE OF UP TO 42,32,44,440 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 1.00 EACH OF OUR COMPANY ("THE 'RIGHT EQUITY SHARES') FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 01/- (RUPEE ONE ONLY) PER EQUITY SHARE AGGREGATING UPTO ₹ 4232.44 LAKHS" ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 81 (EIGHTY ONE) RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY 25 (TWENTY FIVE) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS NOVEMBER 15, 2025 (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 108 OF THIS LETTER OF OFFER.

*Assuming full subscription in the Issue. Subject to finalization of Basis of Allotment.

ATTENTION INVESTORS

NOTICE TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

CORRIGENDUM CUM ADDENDUM TO LETTER OF OFFER DATED 11TH NOVEMBER, 2025
This notice should be read in conjunction with the Letter of Offer dated 11TH November, 2025 filed by the Company with the Stock Exchange and SEBI and the LOF and CAF that have been sent to the eligible equity shareholders of the company. The eligible equity shareholders are requested to please note the following:

RIGHTS ISSUE PERIOD EXTENDED

ISSUE CLOSING DATE (OLD)

MONDAY, DECEMBER 8, 2025

ISSUE CLOSING DATE (NEW)

MONDAY, DECEMBER 15, 2025

This is to inform you that the board of Directors of the company at its meeting held on Friday, December 05, 2025, has considered and approved the extension of the issue closing date of the ongoing rights issue. The date of closure of the Rights Issue, which opened on Monday, 24TH November, 2025 and was scheduled to close on Monday, 8TH December, 2025 has now been extended to Monday, 15TH December, 2025. The extension has been granted to facilitate better participation from eligible shareholders and to provide them with adequate time to subscribe to the Rights Issue. Accordingly, the last date of submission of the duly filled in CAF (along with the amount payable on application) is Monday, 15TH December, 2025. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Rights Issue as mentioned above are requested to take note of the Issue Closure Date as Monday, 15TH December, 2025. Accordingly, the revised timeline for the Rights Issue is as follows:

ISSUE OPENING DATE	Monday, 24 TH November, 2025
LAST DATE FOR ON MARKET RENUNCIATION OF RIGHTS ENTITLEMENTS	Wednesday, 03 RD December, 2025
LAST DATE FOR CLOSURE OF OFF MARKET TRANSFER OF RIGHTS ENTITLEMENTS	Friday, 12 TH December, 2025
ISSUE CLOSING DATE#	Monday, 15 TH December, 2025
FINALIZATION OF BASIS OF ALLOTMENT (ON OR ABOUT)	Tuesday, 16 TH December, 2025
DATE OF ALLOTMENT (ON OR ABOUT)	Tuesday, 16 TH December, 2025
DATE OF CREDIT RIGHTS EQUITY SHARES (ON OR ABOUT)	Wednesday, 17 TH December, 2025
DATE OF LISTING (ON OR ABOUT)	Thursday, 18 TH December, 2025

*Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncee(s) on or prior to the Issue Closing Date.

Our Board will have the right to extend the Issue period as it may determine from time to time but not exceeding 30 (Thirty) days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date). Further, no withdrawal of the Application shall be permitted by any Applicant after the Issue Closing Date.

This Corrigendum cum